

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में आज दिनांक:- 05.09.2022 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा पर्चा सट्टा की खाईबाडी करने वाले 02 अभियुक्त 1. अनस पुत्र अजरुद्दीन व 2. मुनाजिर पुत्र जरीफ निवासीगण मौ0 राजूसराय थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा को मय पर्चा सट्टा व 780/- रुपये नगद सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना नौगावां सादात पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त मौहम्मद जमा उर्फ मौहम्मद इकबाल पुत्र रौनक अली निवासी मौ0 हफ्ता बाजार कस्बा व थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा अभियुक्त मूलचन्द उर्फ मूली पुत्र मिश्रिलाल निवासी ग्राम नवाबपुरा भूढ थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा को मय 30 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना गजरौला पुलिस द्वारा अभियुक्त फेमू उर्फ फहीमुद्दीन पुत्र नन्हे निवासी ग्राम शाहपुर उर्फ शाहबपुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा को मय एक तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गजरौला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना हसनपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त साबिर हुसैन पुत्र नत्थू निवासी माजरा भगवानपुरी थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- थाना हसनपुर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेल रहे 02 अभियुक्त 1. प्रेम सिंह पुत्र बिहारी निवासी ग्राम मंगरौली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा व 2. शंकर पुत्र अमर सिंह निवासी मौ0 होली चौक कस्बा थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को मय 52 पत्ते ताश व 335/- रुपये नगद सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना हसनपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 1. बब्बू उर्फ शाहरुख खान पुत्र फुलचन्द निवासी जाटो वाली थाना बछरायूं जनपद अमरोहा व 2. महीपाल पुत्र जीराम निवासी ग्राम सादुल्लापुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा को मय 20-20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना रहरा पुलिस द्वारा ग्राम बुराबली तिराहे से एक अभियुक्त वसीम पुत्र इकबाल निवासी ग्राम बुराबली थाना रहरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अदद राइफल 315 बोर व दो कारतूस जिंदा एवं एक कारतूस खोखा नजायज बरामद हुये। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रहरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 26 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना डिडौली पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति, थाना मण्डी धनौरा पुलिस द्वारा 05 व्यक्ति व थाना गजरौला पुलिस द्वारा 11 व्यक्तियों व थाना सैदनगली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति व थाना वछरायुं पुलिस द्वारा 2 व्यक्ति व थाना रजबपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।